



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने अवैध शराब सहित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अवैध शराब में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में दिनांक 04.09.2022 को थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी 30नि0 चन्द्रशेखर सिंह व 30नि0 नवरोत्तम सिंह मय हमराहीगण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान के तहत 04 नफर अभियुक्तागण 1.संगीता कबूतरा पत्नी भारत कबूतरा उम्र करीब 40 वर्ष 2.सोनम पत्नी जितेन्द्र कबूतरा उम्र करीब 30 वर्ष निवासीगण चुरारी कबूतरा डेरा ग्राम चुरारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा तथा 1.बबीता पत्नी अजय कबूतरा उम्र करीब 26 वर्ष 2.संध्या पत्नी चुनमुन उर्फ रॉकी कबूतरा उम्र करीब 27 वर्ष निवासीगण कबूतरा डेरा मुढ़ारी ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को क्रमशः

15-15 लीटर तथा 10-10 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब नाजायज के साथ क्रमशः चुरारी कबूतरा डेरा बहद ग्राम चुरारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा तथा रेलवे क्रासिंग अंडर ब्रिज के पास बहद ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर क्रमशः मु0अ0सं0 236/2022, 237/2022, 238/2022, 239/2022 धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.30नि0 चन्द्रशेखर सिंह
- 2.30नि0 नवरोत्तम सिंह
- 3.कां0 महेश कुमार
- 4.म0कां0 प्रेमा
- 5.म0कां0 रीतू यादव





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 04.09.2022 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 अनुरुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तलाश वाँछित वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 525/2020 धारा 363/366/376(3) भादवि व 6 पाक्सो अधिनियम के वाँछित अभियुक्त कृष्ण उर्फ कृष्णकान्त चौरसिया पुत्र शंकरलाल चौरसिया उम्र 27 वर्ष निवासी इमलीबरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा हाल पता महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के पीछे 2 रोड ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास लखनऊ को राठ चुंगी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित कर मां0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अनुरुद्ध प्रताप सिंह थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
2. कां0 बलराम पटेल

गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक विवरण:-

कृष्ण उर्फ कृष्णकान्त चौरसिया पुत्र शंकरलाल चौरसिया उम्र 27 वर्ष निवासी इमलीबरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा हाल पता महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के पीछे 2 रोड ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास लखनऊ सम्बन्धित मु0अ0सं0 525/2020 धारा 363/366/376(3) भादवि व 6 पाक्सो अधिनियम थाना कोतवाली नगर जिला महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना खन्ना में लगी मिशन शक्ति चौपाल, महिलाओं एवं बालिकाओं ने जाने अपने अधिकार...।

उ0प्र0 सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सशक्त बनाये जाने के उद्देश्य से मिशनशक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद के सम्पूर्ण थानों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 05.09.2022 को थाना क्षेत्र खन्ना में थाना खन्ना अपराध निरीक्षक श्री देवेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महिलाओं एवं बालिकाओं को मंडी समिति में क्षेत्र की समूह में काम करने वाले महिलाओं को एकत्र कर महिला मिशन शक्ति, नारी सम्मान व स्वालंबन के उद्देश्य से जागरूकता अभियान को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं को वूमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090, डायल 112, मां0 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, साइबर सुरक्षा 1930 इत्यादि महत्वपूर्ण नंबरों पर अपनी समस्याओं को निवारण हेतु कॉल करने व शिकायत दर्ज करा कर त्वरित सहायता पाने के संबंध में विस्तार से बताया गया।

इस अवसर पर थाना खन्ना की महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए निवारण हेतु उपाय बताए गए उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण के लिये शासन द्वारा प्रचलित विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के बारे में विस्तार से बताया गया साथ ही यह भी बताया गया है कि किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है सभी अपने अधिकारों को जाने व अपनी बात को खुलकर बतायें





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर प्रतिदिन की भांति जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित-

आज दिनांक 05.09.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



मिशन शक्ति अभियान के तहत महोबा पुलिस द्वारा प्रतिदिन चलाया जा रहा महिला जागरूकता व सशक्तिकरण अभियान महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं को किया जा रहा जागरूक।

शासन द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा व जागरूकता एवं सशक्त बनाने के लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षार्थ जनपद में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा प्रतिदिन मंदिर/भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर गश्त कर बालिकाओं/महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक एवं चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

उक्त निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त थानों में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा स्कूल/मंदिर/भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर चेकिंग की गई तथा बालिकाओं/महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के बारे में जागरूक किया गया तथा उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को यूपी पुलिस द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा संबंधित सेवाएं जैसे- वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं जनपद के उच्चाधिकारियों के सीयूजी नम्बरों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।

साथ ही सभी बालिकाओं/महिलाओं को बताया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहां पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण कराया जायेगा, सभी बालिकाओं/महिलाओं को हेल्पलाइन नम्बरों का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा आसपास बेवजह घूम रहे युवकों/शोहदों से पूछताछ कर चेतावनी दी गयी तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशानुसार जनपद के प्रमुख होटल/रिसोर्टों में अग्निशमन केंद्र महोबा द्वारा फायर सेफ्टी का किया गया औचक निरीक्षण

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक -05.09.2022 को स्कीम-5 के अंतर्गत प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महोबा देवेश तिवारी मय टीम के द्वारा जनपद महोबा के होटलों का अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत होटल/रिसोर्टों में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का फायर ऑडिट किया गया जिसमें अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठानों पर लगे फायर एक्सटिंगuishर्स की जांच की गयी व होटलों में लगे फायर अलार्म सिस्टम व फायर एक्विजट की सम्बन्धी प्रबन्धों का निरीक्षण किया गया तथा अग्निशमन उपकरणों के संचालन, रख-रखाव के बारे में उपस्थित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया एवं आग से रोकथाम के उपाय बताए गए तथा होटल/रिसोर्टों में आकस्मिक फायर एक्विजट सम्बन्धी होटल में स्पष्ट निर्देशों को दर्शाने व प्रतिष्ठानों पर अग्निशमन उपकरणों की कमी को तुरंत पूर्ण करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण किये गये होटलों का विवरण निम्नवत है - 1- हंड्रेड पॉम होटल 2- होटल शालीमार 3- होटल शार्क इन 4- होटल रॉयल पैलेस 5- होटल आरआरसी 6- होटल राघव पैलेस 7- होटल अवध 8- होटल प्रशांत 9- होटल चंद्रकुंवर पैलेस 10- होटल ललिता भवन।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



सार्वजनिक स्थान पर हार जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 अभियुक्तों को थाना अजनर पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 05.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री लाखन सिंह द्वारा गठित की गयी टीम उपनिरीक्षक श्यामदेव सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम स्यावन में ताश पत्तो से रुपये पैसों की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. सद्दाम राइन पुत्र हनीफ उम्र 22 वर्ष निवासी छतरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद छतरपुर 2. कृष्णकान्त यादव पुत्र देवीदीन उम्र 34 वर्ष निवासी कस्बा व थाना अजनर जनपद महोबा 3. अवधेश तोमर पुत्र जयसिंह उम्र 32 वर्ष निवासी कस्बा व थाना अजनर जनपद महोबा जिनके कब्जे से माल फड़ 5200/- रुपये , जामा तलाशी 700/- रुपये व 52 अदद ताश पत्ते व घटनास्थल से 05 अदद मोटर साइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु.अ.सं. 177/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

बरामदगी—मालफड़ 5200/- रुपये , जामा तलाशी 700/- रुपये व 52 अदद ताश पत्ते व 05 अदद मोटर साइकिल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री लाखन सिंह थाना अजनर जनपद महोबा ।
2. उ.नि. श्री श्यामदेव सिंह थाना अजनर जनपद महोबा ।
3. कां. भारत मौर्य 4. कां. आशीष सरोज 5. कां. जितेन्द्र सिंह गौतम
6. कां. सूर्याश प्रताप सिंह थाना अजनर जनपद महोबा ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना अजनर पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम अभियान के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 05.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर श्री लाखन सिंह द्वारा गठित टीम उपनिरीक्षक श्यामदेव सिंह तथा आबकारी निरीक्षक श्री योगेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से कबूतरा डेरा ग्राम खोई से अभियुक्त 1. श्रीमती रागिनी पत्नी सुशान्त 2. श्रीमती रीना पत्नी गोपाल 3. श्रीमती माया पत्नी रोहित निवासी गण कबूतरा डेरा खोई थाना अजनर जनपद महोबा के कब्जे से तीन प्लास्टिक की केन में 45 लीटर देशी कच्ची अवैध शराब बरामद कर गिरफ्तार किया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 174/2022,175/2022,176/2022 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उपनिरीक्षक श्री श्यामदेव सिंह थाना अजनर जनपद महोबा

2.आबकारी निरीक्षक श्री योगेश कुमार (आबकारी विभाग महोबा) 3. हे.का. विक्रम सिंह (आबकारी विभाग महोबा) 2. कां. सुधीर कुमार थाना अजनर जनपद महोबा 3. म.कां. शीला यादव थाना अजनर जनपद महोबा 4. महिला **HG** रश्मि चौरसिया 7. महिला **HG** उमादेवी (आबकारी विभाग महोबा)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. श्रीमती रागिनी पत्नी सुशान्त 2. श्रीमती रीना पत्नी गोपाल 3. श्रीमती माया पत्नी रोहित कबूतरा निवासी गण कबूतरा डेरा खोई थाना अजनर जनपद महोबा

बरामदगी-

तीन प्लास्टिक की केन में करीब 15 , 15 लीटर (कुल 45 लीटर) देशी कच्ची अवैध शराब।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा जनपद में तैनात 30 मुख्य आरक्षी को उपनिरीक्षक पद पर पदोन्नत होने पर सभी उपनिरीक्षकों के कन्धे पर स्टार लगाकर उनके उज्वल भविष्य की दी गयी शुभकामनायें।

पुलिस उपमहानिरीक्षक स्थापना, निमित्त मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांकित 31.08.2022 के द्वारा उत्तर प्रदेश उ0नि0 एवं निरीक्षक सेवा नियमावली 2015 (यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार ज्येष्ठता के आधार प्राधिकृत बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस को उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नत किया गया है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 05.09.2022 को जनपद महोबा में तैनात 30 मुख्य आरक्षी की पदोन्नति उपनिरीक्षक के पद पर होने पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु हर्षिता गंगवार द्वारा पुलिस अधीक्षक कैंप कार्यालय में स्टार लगाकर पदोन्नत हुये उपनिरीक्षकों के कन्धे पर स्टार लगाकर अलंकृत किया गया तथा सभी को बधाई देते हुये मिठाई खिलाकर उनके उज्वल/निरोगी भविष्य की कामना की गयी।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सर्किल कोतवाली के समस्त थानों के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश...

आज दिनांक 05.09.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा सर्किल कोतवाली के सभी थानों के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया। अर्दली रुम के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्किल कोतवाली के सभी थानों में लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से वार्ता करते हुये लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा की गई तथा विवेचनाओं का समय से निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित विवेचकों को निर्देशित किया गया साथ ही जनशिकायतों की सुनवाई कर जाँच करने व विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु भी निर्देश दिये गये।

इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण पर जोर देते हुए वांछित अभियुक्तों व वारंटियों की गिरफ्तारी करने, आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों एवं शिकायती प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण, रात्रि में चौराहे/तिराहे पर चेकिंग करके अपराधियों के संचरण पर रोक लगाने सहित अन्य अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों का भौतिक सत्यापन करने, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के तस्करो व क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित गति से कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए, इसके साथ ही वर्तमान समय में शासन एवं उच्चाधिकारीग द्वारा जारी आदेशों एवं अभियानों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर रामप्रवेश राय, प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी हर्षिता गंगवार व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, कबरई, खन्ना सहित समस्त थाना के विवेचकगण/उपनिरीक्षक उपस्थित रहे।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।



आज दिनांक **05.09.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस बल द्वारा संवेदनशील स्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पैदल गस्त कर अवैध अतिक्रमण को हटाने के संबंध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील। स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन ढाबा

आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यातायात नियमों के उल्लंघन पर **80** ई-चालान किये गये।

